



Maps | APIs | Navigation | Tracking | GIS

February 02, 2023

The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
BSE SCRIIP Code: 543425

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai 400 051
NSE Symbol: MAPMYINDIA

Subject: Copy of Consolidated & Standalone Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022, published in newspaper.

Dear Sir / Madam,

Please find attached copies of Consolidated and Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi Edition).

We request you to kindly take the above information on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For C.E. Info Systems Limited

Saurabh Surendra Somani
Company Secretary & Compliance Officer

C.E. INFO SYSTEMS LIMITED

(Previously Known as C.E. Info Systems Pvt Ltd)

237, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi 110020, Digital Address: eloc.me/mmi000, Email: contact@mapmyindia.com,
Website: www.mapmyindia.com, Phone: +91-11-4600 9900, CIN : L74899DL1995PLC065551, A CMMI & ISO 9001:2008 Certified Company

● NIRMALA SITHARAMAN, FINANCE MINISTER

'Efficient spending is paying dividends'

After presenting the Union Budget, finance minister Nirmala Sitharaman interacted with mediapersons and highlighted the government's resolve to make the exemption-less new regime an attractive option for taxpayers. She also discussed the steep hike in capex, inflation concerns and the goal to make India a ₹5-trillion economy, among others. Edited excerpts:

Does the increase in the income tax rebate limit to ₹7 lakh under the new regime mean the end of exemptions/ various incentives for investments and savings?

We want to make the new tax regime, which is without exemptions, attractive enough for people to think that this will be the best option for them because it gives them better rates. It also doesn't make the compliance a burdensome exercise. The rates can be so low that one benefits by paying lesser tax, and those exemptions that they could've otherwise gained from would've probably resulted in the net amount being the same. However, if there are people who think that being under the old exemption regime benefits them, they are welcome to continue with the same.

What percentage of taxpayers moved to the new tax regime in

the last assessment year?

For companies, over 60% of our corporate tax is coming from the exemption-free tax regime. We are hopeful that this scheme for individual taxpayers will ensure that the majority shift to the new regime.

What was the need to lower the effective tax rate for high-income groups?

Tax rates in our country were amongst the highest, even more than in some developed countries. They were introduced as interim measures, and that has now been reduced so that the highest effective tax rate becomes 39%. The move is towards lower rates but fewer avoidance measures and exemptions.

There is a big gamble in terms of capex hike. Will this will trigger job creation?

When projects are undertaken and money is utilised, how would they be completed without manpower and jobs? No project can be completed without human intervention, and so jobs are being created on the ground.

The revised estimate for capex in FY23 is slightly lower with a big jump for FY24. What gives the government confidence that more of it will be well-spent?

The revised estimates are around 97-98% of the Budget estimates, there is a

slight deviation. This is mainly on the state capex, which is falling short of the ₹1-trillion figure (capex loan). The central capex will exceed the Budget estimates. Some portions of the state capital investment scheme have reform conditions and some states haven't been able to meet some of the conditions. Therefore, the shortfall is on the states' side, not the Centre, and about 76% of the former's expenditure is likely to be spent, according to our estimates.

The increments are in clear areas — firstly, railways, which has enough projects to absorb the additional capex; then highways, which has adequate projects running; third, states, which may pose a challenge but they are gearing up now.

The fiscal deficit glide path that you have given is 4.5% by 2025-26. Does it also indicate your confidence in continuing tax buoyancy in the coming years?

As we've seen in the GST collection figures, direct taxation buoyancy has also been observed in the coming year. To the credit of our team, there has been a robust management of macroeconomics. That bears an impact. With revenue expenditure, disinvestment, banking, etc, all of us have together worked in such a way that you can earn more through tax avoidance-related measures and bringing more people into the tax net. Similarly, prudent ways of effective expenditure without cutting down expen-

diture are all ways in which you are making money mean more. For every rupee that you spend, you get better returns. Efficient management has an important role to play here.

While calculating the fiscal math of FY24, how did you assume disruptive variables like crude prices, along with China unlocking and its impact on commodity prices?

There's no part of the Budget mathematics that has a crude price number as an input in any spreadsheet. There is no direct subsidy on any petroleum product, unlike fertiliser prices or MSP. The latter have a direct impact on the Budget. Petrol price would have an impact only if it triggers a major change in the tax system. Otherwise, petrol and diesel prices do not directly affect our budgeting. The only assumption we are making is that there will be no subsidies on petrol and diesel.

You spoke about the review of regulations by financial sector regulators in the Budget speech. Can you elaborate?

Regulations are brought in while the regulators serve their purpose. When the economy changes, regulators review them as a part of regular exercise. It is time to take up a comprehensive review. If you recall, RBI had done the same in 2020 after forming a committee and had come out with a report in 2021.

With real interest rates returning to positive territory in the last few months with the RBI hiking rates, do you see the borrowing costs for companies rising?

The increase in borrowing over the previous year is 8%. The economy has grown at a nominal rate of 1.5% in the same period. This is a level of borrowing that would not lead to any incremental crowding out. As a percentage of the size of the nominal economy, the total gross borrowing will actually be lower in 2023-24 than in 2022-23. So, incremental crowding out is not a significant issue and would not lead to any impact on borrowing costs in the private sector.

For pharma, a welcome focus on research and innovation



SATISH REDDY

CHAIRMAN,
DR REDDY'S
LABORATORIES

PRESENTED AS THE first Budget in *Amrit Kaal*, it is a 'Budget for all', providing a long-term road map to build India@100 in 2047 envisioning a prosperous and inclusive India.

The finance minister outlined seven broad priorities of the Budget. I found that it provides a boost to areas such as education, agriculture, startups, infrastructure, ease of doing business and others. These sectors will be critical to inclusive growth of the country.

For example, the agriculture accelerator fund to boost agri startups by young entrepreneurs in rural areas, fund allocation for modern techniques and credit will be important to re-orient the sector and help overcome challenges like climate change.

Similarly, increased capital expenditure by 33% to ₹10 trillion for infrastructure development for 2023-24 will help ramp up various key projects and create jobs.

Overall, three themes that emerge strongly and commendably from the Union Budget 2023-24 and cut across sectors are digital, green growth and skilling. Coming to health and pharma,

As the nation develops its road map through 2047, Indian pharma industry, too, has an ambitious plan for India@100 to grow to be a \$400-450 billion industry. We welcome the announcements of Budget 2023-24 and look forward to studying the proposals in detail.

the focus on healthcare is a big highlight of the Budget.

The total allocation for the ministry of health and family welfare has been raised to 2.1% of the GDP, which is a step in the right direction.

The proposal to establish 157 new nursing colleges co-located with existing 157 medical colleges is a welcome investment in capability-building. Another key aspect is the mission to eliminate sickle-cell anaemia by 2047 with provisions for awareness, universal screening and counselling.

For pharma, there is a welcome focus on research and innovation.

The FM announced a new programme to promote research and innovation through centres of excellence (CoE). Public and private medical colleges as well as the private sector will be able to benefit from select laboratories of the Indian Council of Medical Research (ICMR), paving the way for public sector-

academia-industry collaboration.

The FM has also announced plans to encourage pharma to invest in research & development (R&D) in priority areas. The FM announced multi-disciplinary courses for medical devices in existing institutions to create skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research.

The Budget also provides for three centres of excellence for artificial intelligence (AI) in top educational institutions in line with 'Make AI in India and Make AI work for India'. These CoEs will see the creation of an AI ecosystem with inter-disciplinary research and cutting-edge solutions in agriculture, health, and sustainable cities.

The announcement is good news for drugs and healthcare sector since India is now regarded as the world's pharmacy. As a pharma company that was among the earliest to initiate drug discovery in India and continues its drug development programme, we will study Budget 2023-24 with great interest.

The push for an innovation ecosystem, investment in digitalisation, and sustainability are particularly important as we look to strengthen our offering beyond traditional pharmaceuticals and shape healthcare of the future.

As the nation develops its road map through 2047, Indian pharma, too, has an ambitious plan for India@100 to grow to be a \$400-450 billion industry. We welcome the announcements of Budget 2023-24 and look forward to studying the proposals in detail.

cantly towards the growth and innovation quotient of the country.

Relief for MSMEs

The MSME industry is India's ace card in the deck of progress. It is an intrinsic part of our economic growth and development. The infusion of funds and knowledge capital, and revamped credit scheme will boost the sector, and thereby development in a sustainable manner.

Ease of doing business

The Budget included initiatives such as the establishment of a central processing centre to provide faster responses to companies filing forms under the Companies Act.

The establishment of a one-stop solution for reconciling and updating identity maintained by various agencies, and the use of the permanent account number (PAN) as a single business identifier for all digital systems will help businesses efficiently use technologies and reduce compliances.

Overall, the Union Budget 2023, with its absolute focus on a vision of development and self-reliance, is a welcome move from the government. It is now on us, the corporates and the country's populace, to leverage the opportunities and provide the manpower and skill necessary to catapult India into an era of global strength and resilience.

MapmyIndia

MAPPLS

C. E. INFO SYSTEMS LIMITED

(formerly known as C.E. Info Systems Pvt. Ltd.)

Registered and Corporate Office: First, Second, & Third Floor, Plot No. 237, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi 110 020, India; CIN: L74899DL1995PLC065551
Website: www.mapmyindia.com; E-mail: cs@mapmyindia.com; Telephone: +91 11 4600 9900

Q3 Financial Year 2023

Q3 FY23
revenue up 56%
YoY to Rs 68 Cr

9M FY23
Revenue
up 46% YoY
to Rs. 209 Cr

Q3 FY23
EBITDA up 67%
YoY to
Rs. 28 Cr

9M FY23
EBITDA
up 41% YoY
to Rs. 88Cr

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months period ended		Year ended
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Revenue from operations	6766	7,631	4,337	20,898	14,340	20,044
2	Profit before tax	3570	3,550	2,178	10,492	8,452	11,733
3	Profit after tax	2966	2,537	1,852	7,923	6,518	8,707
4	Total Comprehensive Income for the period	2,964	2,583	1,821	7,966	6,429	8,703
5	Profit (PAT) for the year attributable to:						
	Owners of the Company	2,964	2,541	1,852	7,925	6,518	8,703
	Non-controlling interests	2	(4)	-	(2)	-	4
		2,966	2,537	1,852	7,923	6,518	8,707
6	Total comprehensive income for the year attributable to:						
	Owners of the Company	2,962	2,587	1,821	7,968	6,529	8,699
	Non-controlling interests	2	(4)	-	(2)	-	4
		2,964	2,583	1,821	7,966	6,529	8,703
7	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- per share)	1,073	1,073	1,065	1,073	1,065	1,065
8	Other equity (excludes non-controlling interest)	51,823	48,766	41,430	51,823	41,430	43,531
9	Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)						
	(a) Basic	5.53	4.73	3.48	14.77	12.24	16.34
	(b) Diluted	5.41	4.64	3.41	14.46	12.00	15.94

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months period ended		Year ended
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total income from operations (net)	5,925	6,710	4,305	18,820	14,283	19,816
2	Profit before tax	3,645	3,572	1,899	10,682	8,185	11,519
3	Profit after tax	2,985	2,615	1,575	8,112	6,251	8,553
4	Total Comprehensive Income for the period	2,983	2,661	1,545	8,155	6,162	8,548

Note:

1. The previous periods numbers have been regrouped/ rearranged wherever necessary to conform the current period presentation. The figures of Cost of materials consumed, Purchase of stock in trade and Change in inventory have been clubbed together and reflected under "Total cost of material". Project and Field survey expenses, shown separately in earlier quarters, have been clubbed under "other expenses".

2. The above Unaudited Consolidated and Standalone Financials Results of C.E. Info Systems Limited (the "Company") are available on Company's website www.mapmyindia.com and also on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed.

3. The Company has only one business segment, i.e. Map data and Map data related services (GPS navigation, location-based services and IoT). This business mainly consists of products like digital map data, GPS navigation and location-based services, licensing, royalty, annuity, subscription and customizing its products to customers.

4. The above Unaudited Consolidated and Standalone Financials Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2022 (the "statement") were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on January 31, 2023. The Statutory Auditors of the Company has carried out a limited review of the above results for the quarter and nine months ended December 31, 2022.

5. The Company has issued 5563 equity shares on December 21, 2022 under the Employee Stock Option Plan, 2008 of C.E. Info Systems Limited.

6. The Unaudited consolidated and Standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors of
C. E. Info Systems Limited
Rakesh Kumar Verma
Managing Director
DIN: 01542842

Place: New Delhi
Date: January 31, 2023



CP GURNANI

CEO & MD,
TECH MAHINDRA

THE FIRST BUDGET of the country's ongoing *Amrit Kaal*, the Union Budget for FY24 underlines India's strong commitment to innovation, digital leadership, green growth and skilling. The Budget would prove to be instrumental in empowering India to be a technology-driven, knowledge-based economy, and further push deep technology-driven transformation.

A strong focus on technology and R&D will further solidify India's digital leadership and provide a competitive advantage to our talent ecosystem. This, combined with the emphasis on energy transition and policies for green energy and jobs, will allow India to lead by example on the sustainability front, as the country essays a position of strength in the global arena.

Saptarishis of India's *Amrit Kaal*

Remaining true to the strong cultural footprint of the country, the Budget has

महापौर व उपमहापौर का चुनाव छह को, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने निगम के महापौर, उपमहापौर और स्थाई समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए छह फरवरी को निगम की स्थगित पहली बैठक को दोबारा करने की मंजूरी दे दी है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित 6 फरवरी को मुख्यालयस्थित स्थितिक सेंटर में बैठक की मंजूरी दी है। निम्नलिखित परिणाम आने के बाद पहले 6 जनवरी को एलएमएन के बाद में 24 जनवरी को इन सभी पक्षों पर चुनाव होना था, लेकिन 6 जनवरी को एलएमएन के शपथ ग्रहण पहले बैठक को लेकर हंगामा हो गया और फिर कारण के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा 24 जनवरी को बैठक में पाषण्डों का सशपथ ग्रहण तो संघर्षन हो गया, लेकिन महापौरों सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनाव के समय दोबारा हंगामा शुरू हो गया और फिर सदन की

गली में अभद्र भाषा के इस्तेमाल से रोका
तो नशे में धुत युवक ने मारी गोली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी।

दिल्ली के तिमारपुर इलाके में शादी में शामिल होने आए नशे में धुत कुछ लोगों को समझाना एक युवक को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने समझाने वाले युवक को ही गोली मार दी। घायल हालत में उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों में एक युवक को गिरफ्तार कर बाकी की तलाश शुरू कर दी है।

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बुधवार को बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात करीब 12:50 बजे पुलिस को झगड़े और गोलीबारी की सूचना

नई दिल्ली धानी



मौसम		3
तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम-22.0	सूर्योदय- 7:9	
न्यूनतम- 9.0	सूर्यास्त- 6:0	

3

जनसत्ता | 2 फरवरी, 2023

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कंप्यूटर पर शुरू किया बातचीत का नया माध्यम

‘चैटबोट’ एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम है : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने बुधवार को अपना 'वाट्सप चैटबोट' शुरू कर दिया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे जारी किया और इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताया। चैटबोट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम है।

इससे नागरिकों और आयोग के बीच बातचीत और सुगम हो गई है। इसके जरिए शिकायत दर्ज कराने, जानकारी हासिल करने और शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति आदि का पता लगाने में पारदर्शिता आएगी। साथ ही आयोग की ओर से बच्चों, महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को जागरूक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रौद्योगिकी की मदद से बच्चे डीसीपीसीआर से खुद भी जुड़ पाएंगे। इससे पहले, आयोग ने 'अर्ली वाशिंग सिस्टम' की शुरुआत की थी, जिसने शिक्षा विभाग की 50,000 से अधिक छात्रों को स्कूलों में वापस लाने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद की है।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने कहा कि दिल्ली सरकार

‘आप’ इस बार भी नहीं होने देगी चुनाव : भाजपा

दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल से 6 फरवरी को महापौर एवं स्थानीय समिति चुनाव के लिए तारीख तय करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि आम आदमी पार्टी इस बार भी चुनाव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हैं कि वह अपने विधायकों एवं सांसदों को निर्देश दें कि वह 6 फरवरी की बैठक में अनुशासन का पालन कर शांति से चुनाव होने दें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से महापौर पद पर दो नामांकन होने और उसके बाद 6 एवं 24 जनवरी की नगर निगम बैठकों में आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए हंगामे के बाद यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी पार्षद दल में मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को अपने नगर निगम में बहुमत पर विश्वास नहीं है।

बैठक को पीठासीन अधिकारी ने स्थगित कर दिया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेराय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया।

माना जा रहा है कि कोर्ट की दखलअंदर्ज से बचने के लिए निगम के महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव कराने के लिए सदन की बैठक बुलाने की

प्रक्रिया आरंभ की गई है। बताया जा रहा है कि निगम ने 10 फरवरी को सदन की बैठक बुलाने के लिए दिल्ली सरकार को फाइल भेजी थी, जबकि दिल्ली सरकार ने फाइल में संशोधन करते हुए तीन, चार व छह फरवरी में से किसी एक दिन बैठक बुलाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा था। उपराज्यपाल ने छह फरवरी को बैठक आयोजित करने की मंजूरी दे दी है।

सर्द मौसम में भी डेंगू
के 14 मामले मिले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी।

दिल्ली में सर्द मौसम में भी डेंगू के 14 मामले मिले हैं जबकि मलेरिया और चिकनगुनिया से भी बहत राहत नहीं हुई।

निगम की डेंटों से पता चला कि राजधानी में जनवरी में डेढ़ से दस मामले मिले। निगम ने निर्माण स्थलों पर मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंगलवार को सिविल इंजीनियरों और ठेकेदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण के में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) के विशेषज्ञों की टीम एवं उप स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।


आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड
 भूखंड सं. 14, सेक्टर 20, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली- 110075
 दूरभाष: 91-124-4511111; फ़ैक्स: 91-124-4588899; ईमेल: investor@artemishospitals.com; वेबसाइट: www.artemishospitals.com
 सीआईएन: L85110DL2004PLC126414

31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31 दिसं. 22	31 दिसं. 21	31 दिसं. 22	31 दिसं. 21	31 मार्च 22
		(अलेखापरीक्षित)				(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	18,745.21	14,404.69	54,214.40	40,536.92	55,480.12
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,328.15	993.71	3,656.86	2,899.07	3,718.48
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,328.15	993.71	3,656.86	2,899.07	3,718.48
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,026.88	636.35	2,730.49	1,819.51	3,140.15
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	1,040.26	649.06	2,770.81	1,857.65	3,106.68
6	प्रदत्त समता अंश पुंजी (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक)	1,341.19	1,323.77	1,341.19	1,323.77	1,323.77
7	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)					27,925.53
8	आय प्रति समता अंश (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक)					
	(क) मूल (ख) तरलीकृत (ग) अवधि की कृत :	0.78* 0.75*	0.49* 0.47*	2.09* 2.01*	1.40* 1.34*	2.40 2.29

टिप्पणियां:-
कंपनी की प्रमुख एकल वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31 दिसं. 22	31 दिसं. 21	31 दिसं. 22	31 दिसं. 21	31 मार्च 22
		(अलेखापरीक्षित)				(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	18,139.60	14,178.63	52,730.28	39,858.86	54,478.40
2	आपवादिक मदों के उपरांत कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ	1,400.64	1,045.13	3,929.06	3,031.04	3,880.89
3	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ	1,079.21	673.37	2,928.99	1,925.54	3,257.74

1. उपर्युक्त सारांश, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध अलेखाप, शैक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। वित्तीय परिणामों (समेकित/एकल) का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) एवं बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com)) तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट (www.artemishospitals.com) पर उपलब्ध है।
2. दिनांक 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा 01 फरवरी 2023 को आयोजित लेखापरीक्षण समिति की बैठक में की गयी थी तथा कंपनी के निदेशक फंडल ने 01 फरवरी 2023 को आयोजित अपनी बैठक में उनका अनुमोदन किया। सांविधिक लेखापरीक्षाओं ने उपर्युक्त परिणामों पर एक असंशोधित निष्कर्ष उद्घृत किया है।
3. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारितानुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015, परिणामानुसार, (आईएसबी एएस) तथा लागूगोय विस्तार के अनुसार अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन प्रवृत्तियों एवं नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है।

आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिये एवं उसकी ओर से

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 01 फरवरी 2023

ऑकार कंवर
अध्यक्ष
: 00058921

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31 जनवरी, 2023

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर स
सी. ई. इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड
राकेश कुमार वर्मा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 01542842

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31 जनवरी, 2023

